



पतंजलि विश्वविद्यालय
University of Patanjali

Examination Dec. – 2017

B.A. (With Yoga Science) Semester: Fifth
Psychology
Clinical Psychology-I

Time: 3 Hours

Max. Marks: 75

Note: This paper is of seventy five (75) marks divided into three (03) sections A, B, and C. Attempt the questions contained in these sections according to the detailed instructions given therein.

नोट : यह प्रश्नपत्र पचहत्तर (75) अंकों का है जो तीन (03) खंडों क, ख, तथा ग में विभाजित है। प्रत्येक खण्ड में दिए गए विस्तृत निर्देशों के अनुसार ही प्रश्नों को हल करना है।

Section - A / खण्ड-क

(Long Answer Type Questions) / (दीर्घ उत्तरीय प्रश्न)

Note: Section 'A' contains five (05) long-answer-type questions of fifteen (15) marks each. Attempt any three questions. (3×15=45)

नोट : खण्ड 'क' में पांच (05) दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पंद्रह अंक निर्धारित हैं। किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. रोशार् स्याही धब्बा परीक्षण की व्याख्या कीजिए।
Explain about Rorshach inkblot test.
2. नैदानिक मनोविज्ञान की पेशेवर समस्याएँ क्या है ?
What are the professional issues in clinical psychology ?
3. तनाव के मुख्य कारण बताइये।
Write major outcome of stress.
4. मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले घटकों को लिखें।
Write influencing factor of mental health.
5. प्रतिरक्षा क्रियातंत्र क्या है ? विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षा क्रियातंत्र को लिखिए।
What is defence mechanism? Write different types of defence mechanism.

Section - B / खण्ड-ख

(Short Answer Type Questions) / (लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note: Section 'B' contains Six (06) short-answer-type questions of five (05) marks each. Attempt any four (04) questions. (4×5=20)

नोट : खण्ड 'ख' में छः (06) लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए पांच अंक निर्धारित हैं। किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र लिखिए।
Write the scope of clinical psychology.
2. नैदानिक साक्षात्कार की व्याख्या कीजिए।
Explain about clinical interview.
3. तनाव प्रबंधन तकनीक की व्याख्या कीजिए।
Explain stress management technique.
4. मानसिक स्वास्थ्य के घटक बताइये।
Explain components of mental health.

5. प्रक्षेपण और विस्थापन प्रतिरक्षा क्रियातंत्र के बारे में लिखें।
Write about projection and displacement defence mechanism.
6. प्रतिरक्षा तंत्र का महत्त्व लिखिए।
Write the importance of defence mechanism.

Section - C / खण्ड-ग

(Objective Type Questions) / (वस्तुनिष्ठ प्रश्न)

Note: Section 'C' contains ten (10) objective-type questions of one (01) mark each. All the questions of this section are compulsory. (10×01=10)

नोट : खण्ड 'ग' में दस(10) वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गये हैं, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। इस खण्ड के सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

1. प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया ?
(अ) बैरन (ब) अल्फ्रेड बिनने
(स) भाटिया (द) रेवेन
Who created the first intelligence test.....?
(A) Baron (B) Alfred Binet
(C) Bhatia (D) Reven
2. टी. ए. टी.....है।
(अ) बुद्धि परीक्षण (ब) प्रक्षेपी परीक्षण
(स) अभिरूचि परीक्षण (द) इनमें से कोई नहीं
T.A.T is.....
(A) Intelligence test (B) Projective test
(C) Aptitude test (D) None of the above
3. एम.एम.पी.आई. किसका मापन करता है.....
(अ) व्यक्तित्व शीलगुण और मनोविकृति (ब) अभिवृत्ति
(स) बुद्धि (द) अध्यात्म
What does MMPI measures.....
(A) Personality traits and Psychopathology (B) Attitude
(C) Intelligence (D) Spirituality
4. बेंडर विजुअल मोटर गेस्टाल्ट परीक्षण (BGT) है.....
(अ) प्रक्षेपण परीक्षण (ब) व्यक्तित्व परीक्षण
(स) बायो फीडबैक परीक्षण (द) न्यूरोलॉजिकल मूल्यांकन परीक्षण
Bemder visual motor gestalt test (BGT) is.....
(A) Projective test (B) Personality test
(C) Bio feedback test (D) Neurological assessment test
5. वेह्लर वयस्क परीक्षण मापनी (WAIS).....है।
(अ) क्वालिटी ऑफ लाइफ परीक्षण (ब) मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण
(स) बुद्धि परीक्षण (द) तनाव परीक्षण
Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) is.....
(A) Quality of life test (B) Mental health test
(C) Intelligence test (D) Stress test
6. तनाव से बचाव की विधि है.....
(अ) बायो फीडबैक (ब) योग
(स) रिलैक्सेशन विधि (द) इनमें से कोई नहीं
..... are method of coping with stress.
(A) Biofeedback (B) Yoga
(C) Relaxation technique (D) None of the above

7. तनाव का सामान्य अनुकूलन संलक्षण संप्रत्यय किसने दिया था.....?
- (अ) गिब्सन (ब) कैनन-बार्ड
(स) स्किनर (द) हैस सेली
- General adaptation Syndrome (GAS) Concept of stress was given by.....
- (A) Gibson (B) Cannon-Bard
(C) Skinner (D) Hans Selye
8. चयनात्मक भूल की घटना है.....
- (अ) वास्तविकता से इनकार (ब) प्रक्षेपण
(स) दमन (द) इनमें से कोई नहीं
- Phenomenon of selective forgetting is.....
- (A) Denial to reality (B) Projection
(C) Repression (D) None of the above
9. मानसिक स्वास्थ्य का स्तर है।
- (अ) मनोवैज्ञानिक प्रसन्नता अनुभूति (ब) आर्थिक
(स) दैहिक (द) इनमें से कोई नहीं
- Mental health is the level of.....
- (A) Psychological wellbeing (B) Economical
(C) Physical (D) None of the above
10. निम्नलिखित में से मनोविकृति का पता लगाने की कौन-सी विधि सही नहीं है।
- (अ) सामाजिक मानक से विचलन (ब) संकट और क्षति
(स) आई. क्यू. का मापन (द) कुसमायोजित व्यवहार
- Which of the following is NOT a way of defining psychopathology.....
- (A) Deviation from the social norms (B) Distress and impairment
(C) Measuring IQ (D) Maladaptive behaviour

-----X-----